



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला मंगलवार, 23 फरवरी, 2010/4 फाल्गुन, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2 17 फरवरी, 2010

**संख्या यू0 डी0-ए0 (1) 1/2010.**—राज्य सरकार प्रस्तावित करती है कि संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 4 के अधीन अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन, नगरपालिका क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए ताकि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नगरपालिका का गठन किया जा सके जिसे नगर पंचायत धर्मपुर, जिला मण्डी के रूप में, उक्त क्षेत्र के बेहतर विकास तथा समुन्नत व्यवस्था हेतु वर्गीकृत किया जा सके ।

उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के निवासियों से नगर पंचायत, धर्मपुर की प्रस्तावित घोषणा के सम्बन्ध में अपने-अपने आक्षेप/सुझाव, यदि कोई हो, लिखित में प्रस्तुत करने की एतद्द्वारा अपेक्षा की जाती है और ऐसे आक्षेप/सुझाव इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से छः सप्ताह की अवधि के भीतर उपायुक्त, मण्डी के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को लिखित में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। उपर्युक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् कोई भी आक्षेप/सुझाव ग्रहण नहीं किए जाएंगे ।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
प्रधान सचिव।

**अनुसूची**

क्रम सं०	गांव का नाम/महाल	खसरा नम्बर	रकबा वर्ग मीटर में
1.	कुशरी /113	91	4-11-21
2.	सरसकां/124	75	7-62-74
3.	बनाल /131	24	2-04-50
4.	रीयूर /132	72	4-90-97
5.	लोगनी /82	14	1-87-11
6.	कलसावी /91	1860	87-81-78
7.	बरदना /94	26	1-22-51
8.	धर्मपुर /97	1035	76-96-48
9.	छुपानी /98	2183	107-09-73
10.	जंगेले/111	130	10-41-14
			कुल रकबा : 30407-77 वर्ग मीटर

*[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(1) 1/2010, dated 17-2-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].*

**URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION**

*Shimla-2, the 17th January, 2010*

**No. UD-A(1) 1/2010.**—Whereas the State Government proposes that the areas as specified in the Schedule enclosed, should be declared as municipal area under section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 in order to constitute a municipality under sub-section(2) of the section 3 of the Act to be classified as Nagar Panchayat at Dharampur District Mandi, for better development and improved arrangement in the said area.

The inhabitants of the area specified in the said schedule are hereby called upon to submit their objections/suggestions in writing, if any, to the proposed declaration of Nagar Panchayat, Dharampur and such objections should be submitted to the Pr. Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh in writing through the Deputy Commissioner, Mandi within a period of six weeks from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary). After the expiry of above stipulated period no objection, whatsoever shall be entertained.

By order,  
Sd/-  
Principal Secretary.

**SCHEDULE**

Sr. No.	Name of Village/Mauja/Chak	Khasra Number	Area in Sq. Meters
1.	Kushri/113	91	4-11-21
2.	Sarskan/124	75	7-62-74
3.	Banal/131	24	2-04-50
4.	Riur/132	72	4-90-97
5.	Longni/82	14	1-87-11

6.	Kalsawi/91	1860	87-81-78
7.	Bardana/94	26	1-22-51
8.	Dharmpur/97	1035	76-96-48
9.	Chhapanu/98	2183	107-09-73
10.	Jangel/111	130	10-41-14
TOTAL AREA :- 30407-77 Sq. meters			

### सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-171002, 19 फरवरी, 2010

**संख्या सिंचाई 11-43/2009-कांगड़ा.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल ढन, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में मध्यम सिंचाई परियोजना सिद्धाथा के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

#### विवरणी

जिला	तहसील	मौजा-महाल	खसरा नं०	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
कांगड़ा	ज्वाली	ज्वाली-ढन	442/1	0 02 83
			501/1	0 02 09
			502/1	0 02 59
			1960/879	0 04 05
			1961/879/2	0 00 69
			878/1	0 00 35
			877/1	0 00 72
			875/1	0 00 60
			873/1	0 05 25
			863/1	0 01 28
			872/1	0 00 71
			639/1	0 00 90
			640/2	0 01 05
			641/2	0 00 87
			656/1	0 00 67

657/1	0	00	95
658/1	0	01	43
753/1	0	00	30
754/1	0	00	44
756/1	0	02	37
755/1/1	0	00	63
758/1	0	01	16
775/1	0	00	70
774/1	0	02	22
770/1	0	00	66
771/1	0	00	42
769/1	0	00	51
762/1	0	00	48
Kitas-28	0	36	92

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव।

## HIMACHAL PRADESH STATE JUDICIAL ACADEMY

Curzon House Boileauganj, Shimla-171005

### NOTIFICATION

*Shimla-5, 17<sup>th</sup> February, 2010*

**No. HPSJA/Estt./1(21)/2009:14966-76.**—Annual increment at the rate of Rs. 400/- per month in the pay scale of Rs. 12850-17550, is hereby granted in favour of Sh. Manoj Kumar Bansal, Deputy Director of H.P. State Judicial Academy thereby raising the basic pay of the Officer from Rs. 17550/- to Rs. 17950/- w.e.f. 1-2-2010.

Sd/-  
Director,  
H.P. State Judicial Academy Shimla.

ब अदालत श्री गोपाल दास चौधरी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री शैलैन्दर सिंह पुत्र श्री शिव सिंह राना, निवासी ककीरा, डा0 ककीरा, तहसील भटियात, जिला चम्बा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र व हल्फी ब्यान इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम शैलैन्दर सिंह है जो कि पंचायत रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम पटवार वृत्त ककीरा में शालिन्द्र कुमार दर्ज है जो कि गलत दर्ज है। जिसमें नाम दुरुस्ती के आदेश दिए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें उक्त नाम की दुरुस्ती के प्रति कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-3-2010 या इससे पूर्व असागतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गोपाल दास चौधरी,  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, वड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 15/2008

तिथि पेशी : 23-3-2010

चूहडू राम

बनाम

कमल नैन आदि।

दावा तकसीम अराजी खाता नं० 2, वाक्या महाल भरयालू, मौजा एरला, जमाबन्दी साल 1999-2000.

नोटिस बनाम :

1. पवन कुमार, 2. सुशील कुमार, 3. नील कुमार पिसरान श्री उधो राम, 4. श्री तरसेम पुत्र अमर नाथ, 5. पवना देवी पुत्री, 6. अश्वनी कुमार, 7. राकेश कुमार, 8. विनोद कुमार पिसरान चन्दू लाल, 9. कमल नैन, 10. तरसेम चन्द, 11. ललित कुमार पिसरान महन्त राम, 12. विमला देवी, 13. त्रिपता देवी, 14. सुषमा देवी पुत्रियां महन्त राम, 15. प्यारी देवी पुत्री श्री शंकर सिंह, 16. व्यासां देवी, 17. वीना कुमारी पुत्रियां श्री धनी राम वासीगण महाल भरयालू, मौजा एरला, तहसील वड़ोह।

जैसा कि उक्त मुकद्दमा तकसीम इस अदालत में विचाराधीन है और उक्त सभी प्रतिवादी इसमें हिस्सादार मालिक है। इन सभी को अदालत से समनात जारी किये गए लेकिन कुछ तामील उपरान्त हाजिर नहीं आए और कईयों के वादी को पताजात नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से केस लम्बित है।

इस इशतहार मुनादी/राजपत्र हि० प्र० द्वारा उक्त सभी को सूचित कर निर्देश दिया जाता है कि वे इस केस की पैरवी असागतन या वकालतन तिथि पेशी 23-3-2010 समय 10.00 बजे सुबह हाजिर अदालत आकर करें, गैर हाजरी की सूरत में कार्रवाई जाब्ता अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
वड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, वड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 16 / 2008

तिथि पेशी : 23-3-2010

चूहडू राम

बनाम

प्यारी देवी आदि।

दावा तकसीम अराजी खाता नं० 10, वाक्या महाल भरयालू, मौजा एरला, तहसील वड़ोह, जमाबन्दी साल 1999-2000.

नोटिस बनाम :

1. व्यासां देवी, 2. वीना कुमारी पुत्रियां धनी राम, 3. प्रशोतम दास पुत्र श्री चमारू राम, 4. निर्मला देवी पुत्री, 5. नानक चन्द पुत्र श्री परस राम, 6. पारवती देवी विधवा शंकर, 7. पवन कुमार, 8. सुशील कुमार, 9. नील कुमार पिसरान श्री श्री उधो राम, 10. पवना देवी पुत्री, 11. अश्वनी कुमार, 12. राकेश कुमार, 13. विनोद कुमार पिसरान, 14. रमेश कुमार पुत्र श्री धर्म चन्द (मु० खास) मिनजानब धर्म चन्द, वासीगण महाल भरयालू, मौजा एरला, तहसील वड़ोह।

जैसा कि उक्त तकसीम का केस इस अदालत में विचाराधीन है और उक्त सभी प्रतिवादी इसमें हिस्सादार मालिक हैं। इन सभी को अदालत से समनात जारी किये गए लेकिन कुछ प्रतिवादी बावजूद इत्तलाह के हाजिर अदालत नहीं आ रहे जबकि कुछ के वादी को पताजात नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से केस लम्बित चल रहा है।

उक्त सभी प्रतिवादियों को इस इश्तहार मुनादी/राजपत्र हि० प्र० द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन तिथि पेशी 23-3-2010 समय 10.00 बजे सुबह हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, गैर हाजरी की सूरत में कार्रवाई जाबता अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
वड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, वड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 17 / 2008

तिथि पेशी : 23-3-2010

चूहडू राम

बनाम

कमल नैन आदि।

दावा तकसीम अराजी खाता नं० 3, खतौनी नं० 3, खसरा नं० 168, रकबा तादादी 1-70-06 है०, वाक्या महाल भरयालू, मौजा एरला, जमाबन्दी साल 1999-2000.

नोटिस बनाम :

1. कमल नैन, 2. ललित कुमार, 3. विमला देवी, 4. तृप्ता देवी, 5. सुषमा देवी पुत्र/पुत्रियां श्री महन्त राम पुत्र श्री परस राम, 6. व्यासां देवी, 7. वीना देवी पुत्रियां श्री धनी राम, 8. तरसेम पुत्र श्री अमर नाथ पुत्र

श्री परस राम, 9. पवना देवी, 10. अश्वनी कुमार, 11. राकेश कुमार, 12. विनोद कुमार पुत्र/पुत्रियां श्री चन्दू लाल, 13. पवन कुमार, 14. सुशील कुमार, 15. नील कुमार पुत्र श्री उधो राम, सभी वासीगण महाल भरयालू, मौजा एरला, तहसील वड़ोह।

जैसा कि उपरोक्त शीर्षक का तकसीम का मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है। उक्त प्रतिवादी 1 ता 15 इसमें हिस्सादार हैं। इनको अदालत से समनात जारी हुए परन्तु कुछ तामील उपरान्त हाजिर नहीं आए तथा कईयों के पताजात वादी को नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से यह मामला काफी समय से लम्बित चल रहा है।

इस मामला की अगली सुनवाई की तिथि 23-3-2010 है। इस कोर्ट नोटिस/नोटिस मुनादी द्वारा उपरोक्त सभी को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित तिथि पेशी समय 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें। गैर हाजिरी की सूरत में कार्रवाई जाब्ता अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 10-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदातल से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
वड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-----  
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, वड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 18/2008  
तिथि पेशी : 23-3-2010

चूहड़ू राम

बनाम

चन्दू लाल आदि।

दावा तकसीम अराजी खाता नं० 15, वाक्या महाल भरयालू, मौजा एरला, जमाबन्दी साल 1999-2000.

नोटिस बनाम :

1. व्यासां देवी, 2. मीना कुमारी पुत्रियां श्री धनी राम, 3. पवना देवी पुत्री, 4. अश्वनी कुमार, 5. राकेश कुमार, 6. विनोद कुमार पिसरान चन्दू लाल, 7. पवन कुमार, 8. सुशील कुमार, 9. नील कुमार पिसरान श्री उधो राम वासी महाल भरयालू, मौजा एरला, तहसील वड़ोह, जिला कांगड़ा।

जैसा कि उक्त मुकद्दमा तकसीम इस अदालत में विचाराधीन है। उक्त सभी 1 से 9 प्रतिवादी इसमें हिस्सादार मालिक हैं। इसको अदालत से समनात जारी किये गए लेकिन कुछ तामील के बाद भी हाजिर नहीं आ रहे हैं और कईयों के वादी पताजात लाने में असमर्थ है। लिहाजा केस लम्बित चल रहा है।

इस इश्तहार मुनादी/राजपत्र हि० प्र० द्वारा सभी को सूचित कर निर्देश दिया जाता है कि सभी असालतन या वकालतन हाजिर पेशी 23-3-2010 समय 10.00 बजे सुबह आकर पैरवी करें। गैर हाजिरी की सूरत में कार्रवाई जाब्ता अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 10-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदातल से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
वड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

मुकद्दमा नं० : 20 / 2008

तिथि पेशी : 23-3-2010

चूहड़ू राम

बनाम

प्रकाश चन्ध आदि।

दावा तकसीम अराजी खाता नं० 12, वाक्या महाल भरयालू, मौजा एरला, तहसील वड़ोह।

नोटिस बनाम :

1. व्यासां देवी, 2. वीना देवी पुत्रियां श्री धनी राम, 3. अतुल कुमार पुत्र श्री पूरण चन्द, 4. पवनर कुमार, 5. सुशील कुमार, 6. नील कुमार पिसरान श्री उधो राम, 7. पवना देवी, 8. अश्वनी कुमार 9. राकेश कुमार, 10. विनोद कुमार पिसरान श्री चन्दू लाल वासीगण महाल भरयालू, मौजा एरला, तहसील वड़ोह, जिला कांगड़ा।

आदेश :

जैसा कि दावा तकसीम उपरोक्त इस अदालत में विचाराधीन है तथा उक्त सभी इसमें हिस्सादार मालिक हैं। इनको अदालत से कई बार समनात जारी किये गए लेकिन कई तामील के बाद भी हाजिर नहीं आ रहे हैं तथा कईयों के वादी को पताजात ही नहीं मिल पा रहे हैं। इस कारण से यह तकसीम का केस लम्बित चल रहा है।

इस इशतहार राजपत्र हि० प्र०/नोटिस मुनादी द्वारा उक्त सभी को सूचित कर निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामला की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन हाजिर तिथि पेशी 23-3-2010 समय 10.00 बजे सुबह आकर करें। गैर हाजरी की सूरत में कार्रवाई जाब्ता अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 10-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
वड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)

ब मुकद्दमा शीर्षक:

श्री सतीश चन्द्र ठाकुर पुत्र श्री एन० एस० ठाकुर, निवासी क्वार्टर नं० ई० वी०-4/4, एच० पी० एस० ई० बी० कलौनी, सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दरुस्ती।

प्रार्थी श्री सतीश चन्द्र ठाकुर पुत्र श्री एन० एस० ठाकुर, निवासी क्वार्टर नं० ई० वी०-4/4, एच० पी० एस० ई० बी० कलौनी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पुत्र का नाम स्कूल प्रमाण—पत्र में अनीमेश ठाकुर सही दर्ज है लेकिन



उसके पुत्र का नाम नगर परिषद् सुन्दरनगर के कार्यालय अभिलेख में गलती से पुनीत दर्ज किया गया है। अब प्रार्थी के पुत्र का नाम नगर परिषद् सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के अभिलेख में पुनीत के स्थान पर अनीमेश ठाकुर दर्ज करने के आदेश कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) को दिए जाएं।

अतः इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-2-2010 को असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करे। हाजर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) को दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा शीर्षक :

श्री जागीर सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी मकान नं0 140, एकता एवेन्यू, प्रताप नगर, पटियाला (पंजाब)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे ।

प्रार्थी श्री जागीर सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी मकान नं0 140, एकता एवेन्यू, प्रताप नगर, पटियाला (पंजाब) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसकी पुत्री का जन्म बी0 बी0 एम0 बी0 चिकित्सालय, सुन्दरनगर, जिला मण्डी में दिनांक 23-9-1977 को हुआ है लेकिन उसने अपनी पुत्री हरप्रीत बसरा की जन्म तिथि नगर परिषद् सुन्दरनगर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज नहीं करवाई है। अब उसकी पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सुन्दरनगर को दिए जाएं।

अतः इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-2-2010 को असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करे। हाजर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) को दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकदमा शीर्षक :

श्रीमती कल्पना ठाकुर पत्नी श्री कृपाल सिंह, निवासी दोधरी, डा0 दोधरी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया श्रीमती कल्पना ठाकुर पत्नी श्री कृपाल सिंह, निवासी दोधरी, डा0 दोधरी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण—पत्र में कल्पना ठाकुर सही दर्ज है लेकिन उसका नाम परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत धन्यारा के कार्यालय अभिलेख में गलती से मैना देवी दर्ज किया गया है। अब प्रार्थिया का नाम ग्राम पंचायत धन्यारा, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के अभिलेख में मैना देवी के स्थान पर कल्पना ठाकुर दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत धन्यारा, उप—तहसील निहरी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) को दिए जाएं।

अतः इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-2-2010 को असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करे। हाजर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत धन्यारा, उप—तहसील निहरी, तहसील सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) को दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकदमा शीर्षक :

रचना देवी पुत्री श्री जगदीश चन्द, निवासी अलसू, डा0 डैहर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थिनी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र बाबत रजिस्ट्रेशन जन्म तिथि मुस्कान गौतम पुत्री प्रार्थिनी, ग्राम पंचायत डैहर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

प्रार्थिनी ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र सहित पेश किया है कि उसकी पुत्री मुस्कान गौतम का जन्म दिनांक 21-10-2006 को अपने निवास स्थान अलसू में सुबह 6.27 बजे हुआ है। प्रार्थिनी

अपनी पुत्री मुस्कान गौतम की जन्म तिथि समय पर ग्राम पंचायत डैहर के अभिलेख में दर्ज न करवा सकी है। जिसे प्रार्थिनी अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः प्रत्यार्थीगण आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि के पंजीकरण बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 8-3-2010 को इस अदालत में हाजर आकर पेश कर सकता है। हाजर न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 8-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा शीर्षक :

रचना देवी पुत्री श्री जगदीश चन्द, निवासी अलसू, डा0 डैहर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थिनी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र बाबत रजिस्ट्रेशन जन्म तिथि अंकित कुमार गौतम पुत्र प्रार्थिनी, ग्राम पंचायत डैहर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

प्रार्थिनी ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र सहित पेश किया है कि उसके पुत्र अंकित गौतम का जन्म दिनांक 21-2-2004 को अपने निवास स्थान अलसू में शाम 4.45 बजे हुआ है। प्रार्थिनी अपने पुत्र अंकित कुमार गौतम की जन्म तिथि समय पर ग्राम पंचायत डैहर के अभिलेख में दर्ज न करवा सकी है। जिसे प्रार्थिनी अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः फरीकदोयम आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि के पंजीकरण बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 8-3-2010 को इस अदालत में हाजर आकर पेश कर सकता है। हाजर न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 8-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सन्त राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री राजू पुत्र श्री साउणू, निवासी नगरोटा, डा0 द्रंग, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतु।

श्री राजू पुत्र श्री साउणू निवासी नगरोटा, डा0 द्रंग, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र सहित इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री अंजली देवी का जन्म पी0 एच0 सी0 पाली में दिनांक 19-10-2006 को हुआ है लेकिन पी0 एच0 सी0 पाली ने विभागीय भूलवश उसकी पुत्री के जन्म की सूचना ग्राम पंचायत पाली को नहीं दी थी, जिस कारण उसकी पुत्री की जन्म तिथि 19-10-2006 ग्राम पंचायत पाली में दर्ज नहीं हो सकी है। अतः प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 19-10-2006 को दर्ज करने के लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 04-04-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत करे। उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 9-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सन्त राम ठाकुर,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सन्त राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री हेम सिंह पुत्र श्री जेदू राम, गांव सुराहण, डा0 व तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतु।

श्री हेम सिंह पुत्र श्री जेदू राम, गांव सुराहण, डा0 व तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र सहित इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अजय कुमार का जन्म दिनांक 24-1-2005 को घर व गांव सुराहण उसकी धर्मपत्नी श्रीमती चन्द्रकला के पास हुआ है लेकिन भूलवश वह अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि 24-1-2005 ग्राम पंचायत डलाह में दर्ज नहीं करवा सका है। अतः इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पुत्र का नाम अजय कुमार व जन्म तिथि 24-1-2005 को दर्ज करने के लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 4-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत करे। उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाकर यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 9-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सन्त राम ठाकुर,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सन्त राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री जसबन्त सिंह पुत्र श्री भादर सिंह, निवासी रोपी, डा0 गवाली, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।

ग्राम पंचायत डलाह के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में अपने पुत्रों के नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने बारे।

श्री जसबन्त सिंह पुत्र श्री भादर सिंह, निवासी रोपी, डा0 गवाली, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र सहित इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसके पुत्रों का जन्म सी0 एच0 सी0 पधर में दिनांक 9-3-2006 को उसकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू के पास हुआ है, उसके बड़े पुत्र का नाम अक्षित कुमार उसका जन्म समय 8.50 बजे व उसके छोटे पुत्र का नाम दीक्षित कुमार उसका जन्म समय 9.10 बजे हुआ है। पुत्रों के जन्म उपरान्त सी0 एच0 सी0 पधर ने दोनों पुत्रों की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत डलाह के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाई हैं। अतः प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके दोनों पुत्रों के नाम (बड़े पुत्र का नाम अक्षित कुमार दिनांक 9-3-2006 व छोटे पुत्र का नाम दीक्षित कुमार दिनांक 9-3-2006) को दर्ज करने के लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 4-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत करे। उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 9-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सन्त राम ठाकुर,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

